



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आश्विन 1934 (श०)
(सं० पटना 564) पटना, गृहस्पतिवार, 18 अक्टूबर 2012

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

15 अक्टूबर 2012

सं० नि०प्रा०/नि० 1-09/2012 खंड-9648—बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-9260 दिनांक 30.07.2012 द्वारा अन्य सहित परिशिष्ट-1 में अंकित व्यापार मंडल सहयोग समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था, जिसके अनुसार नामांकन की तिथि दिनांक 20.08.2012 निर्धारित की गयी थी।

जिला सहकारिता पदाधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार परिशिष्ट-1 में अंकित व्यापार मंडल सहयोग समितियों का चुनाव कोरम के अभाव में सम्पन्न नहीं हो सका है। अतएव इन व्यापार मंडल सहयोग समितियों के निर्वाचन हेतु प्राधिकार एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुए परिशिष्ट-1 की टिप्पणी में अंकित शर्तों के अधीन निम्न रूप से निर्वाचन कार्यक्रम नियत करता है :-

(1)	अतिरिक्त नामांकन की तिथि एवं समय	30.10.2012 (मंगलवार) 11:00 बजे पूर्वाह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक
(2)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	31.10.2012 (बुधवार) 11:00 बजे पूर्वाह्न से लगातार
(3)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि/प्रतीक आवंटन	01.11.2012 (गुरुवार) 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक

(4)	मतदान, अगर आवश्यक हो	10.11.2012 (शनिवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 2:00 बजे अपराह्न तक
(5)	मतगणना	10.11.2012 (शनिवार) 3:00 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक

जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुका है, उन्हें पुनः नामांकन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्राधिकार द्वारा पूर्व में जारी दिशा निदेशों के अधीन नामांकन पत्र का अतिरिक्त सेट दाखिल किये जाने पर रोक नहीं होगा।

संबंधित व्यापार मंडल सहयोग समितियाँ के मतदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे संगत अधिनियम/नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने-अपने व्यापार मंडल सहयोग समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। निर्वाचन के लिए पूर्व में दिये गये निदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

संबंधित व्यापार मंडल सहयोग समिति के निर्वाचन पदाधिकारी नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 15.10.2012 को अतिरिक्त नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। उन्हें यह भी निदेशित है कि वे समिति के सभी सदस्यों के सूचनार्थ निर्वाचन कार्यक्रम को सूचना पट्ट पर प्रकाशित करेंगे।

आदेश से,
एन0 एस0 माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1

वैसे व्यापार मंडलों की सूची जिनके निर्वाचन कोरम के अभाव में नहीं हो सके हैं।

क्र०	जिला	प्रखंडों का नाम जहां व्यापार मंडल अवस्थित हैं
1	पटना	सम्पतचक
2	पटना	खुशरूपुर
3	पटना	दनियावां
4	पटना	अथमलगोला
5	पटना	बेलछी
6	कैमूर	भगवानपुर
7	नवादा	काशीचक
8	पूर्वी चंपारण	छौड़ादाना
9	पूर्वी चंपारण	बनकटबा
10	पूर्वी चंपारण	मेहसी
11	पूर्वी चंपारण	फेनहारा
12	पूर्वी चंपारण	हरसिद्धी
13	सीतामढ़ी	परसौनी
14	सीतामढ़ी	चरौत
15	शिवहर	पुरनहिया
16	सहरसा	बनमा इटहरी
17	सुपौल	मरौना
18	मधेपुरा	चौसा

क्र०	जिला	प्रखंडों का नाम जहां व्यापार मंडल अवस्थित हैं
19	पूर्णियां	बैसा
20	कटिहार	समैली
21	कटिहार	फलका
22	दरभंगा	हायाघाट
23	दरभंगा	किरतपुर
24	दरभंगा	गोड़ा बौराम
25	समस्तीपुर	रोसड़ा
26	सारण	दरियापुर
27	सिवान	वसन्तपुर
28	सिवान	भगवानपुर
29	भागलपुर	सन्हौला
30	बांका	चान्दन
31	मुंगेर	असरगंज
32	लखीसराय	रामगढ़ चौक
33	गया	मोहरा
34	गया	नीमचक बथानी

टिप्पणी : “नयी उपविधि” से शासित व्यापार मंडलों के मामले में अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार मतदाताओं की अनुपस्थिति अथवा मतदाताओं की पर्याप्त संख्या नहीं होने की स्थिति में यदि प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों का आरक्षण कोटि के अनुसार निर्वाचन संभव नहीं हो पाता है एवं निर्वाचन के फलस्वरूप कोरम पूरा नहीं हो पाता है, वैसी स्थिति में संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी इसे अविलंब, लेकिन किसी भी परिस्थिति में दिनांक 20.10.2012 के बाद नहीं, प्राधिकार को सूचित कर देंगे।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 564-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>